

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25] नई दिल्ली, शनिवार, जून 23, 2001 (आषाढ़ 2, 1923)
No. 25] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 23, 2001 (ASADHA 2, 1923)

इस भाग के भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालयों द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	463	भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केंद्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	497
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	497	भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	3
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	3	भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, निवृत्त और महानिवा-पण्यक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के सम्बन्ध और अद्योतन्य कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	2299
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	703	भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	801
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III—खण्ड 3—मुख्य भाषाओं के प्राधिकार के अधीन प्रकाशित द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग II—खण्ड 1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III—खण्ड 4—विभिन्न अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	4007
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर मन्त्रियों के बिना तथा रिपोर्ट	*	भाग IV—निरन्तरकारी व्यक्तियों और निरन्तरकारी निकायों द्वारा जारी किए गये विज्ञापन और नोटिस	213
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केंद्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग V—देशी और विदेशी राज्यों के सम्बन्ध में जारी क गये आदेशों की शर्तों का उल्लेख	*
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केंद्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*		

*श्रीकेंद्र प्रान्त नहीं हुए।

CONTENTS

PAGE	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	463
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	497
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	3
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	705
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—Sub-section (i)—General Statutory Rules including Orders, By-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—Sub-section (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—Sub-section (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including By-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	2299
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	801
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notification including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	4007
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	213
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence), and by the Supreme Court]

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 मई, 2001

संकल्प

सं० कू/हिन्दी/621/58/98—इस मंत्रालय के 10 मई, 1995 के संकल्प संख्या कू/हिन्दी/621/32/93 के अधिक्रमण से विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है। पुनर्गठित समिति की संरचना नीचे लिखे अनुसार होगी :—

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 1. विदेश मंत्री | अध्यक्ष |
| 2. विदेश राज्य मंत्री | उपाध्यक्ष |
- संसद सदस्य
- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. श्री पद प्रकाश गोयल | संसद सदस्य (राज्य सभा) |
| 2. श्रीमती सरला महेश्वरी | संसद सदस्य (राज्य सभा) |
| 3. श्री संजय पासवान | संसद सदस्य (लोक सभा) |
| 4. श्री शीमा राम ओला | संसद सदस्य (लोक सभा) |

संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिनिधि :

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 5. श्री रमाशंकर कौशिक | संसद सदस्य (राज्य सभा) |
| 6. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय | संसद सदस्य (लोक सभा) |

विदेश मंत्रालय द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य :

- | | |
|-------------------------------|--|
| 7. श्री विष्णु निबारा मिश्र | सुप्रसिद्ध हिन्दी विद्वान एवं पत्रकार |
| 8. डा० चन्द्रिका प्रसाद शर्मा | संवित्तिज्ञ रीडर (हिन्दी) एवं हिन्दी लेखक |
| 9. श्रीमती मृदुला भिन्हा | समाज सेविका एवं अध्यक्ष, महिला समाज कल्याण बोर्ड |
| 10. डा० विक्रम सिंह | हिन्दी लेखक एवं ग्राह्यकार |

राजभाषा विभाग द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य :

- | | |
|---------------------|--|
| 11. डा० केशव फालके, | 12बी/20, शासकीय अधिकारी निवास,
हार्मो अली, मुम्बई-400034 (महाराष्ट्र) |
| 12. डा० मधु धवन, | कै 3, अन्ना नगर (पूर्वी) बेलूर-600102 (मणिपुराडु) |

- | | |
|---------------------------|---|
| 13. डा० चन्द्रकांत मेहता, | 16 हैवन पार्क, रामदेव नगर, सैटेलाइट, अहमदाबाद-380015 (गुजरात) |
|---------------------------|---|

नागरी प्रचारिणी सभा के प्रतिनिधि :

- | | |
|--------------------------|--|
| 14. श्री सुधाकर पान्डेय, | प्रधानमंत्री
नागरी-प्रचारिणी सभा, वाराणसी |
|--------------------------|--|

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के प्रतिनिधि :

- | | |
|------------------------------|--|
| 15. श्री गोपाल कृष्ण परमिया, | केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद् के प्रतिनिधि |
|------------------------------|--|

सरकारी सदस्य :

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. विदेश सचिव | |
| 2. सचिव, | राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली |
| 3. सचिव (ई आर) विदेश मंत्रालय, | नई दिल्ली |
| 4. सचिव एवं डीन, विदेश सेवा सम्मान | विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली |
| 5. सचिव (प्रशिक्षण) विदेश मंत्रालय, | नई दिल्ली |
| 6. अवर सचिव (प्रशा०) विदेश मंत्रालय, | नई दिल्ली |
| 7. अवर सचिव (यू० एन०) | विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली |
| 8. अवर सचिव (एफ० ए०) | विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली |
| 9. महानिदेशक, भारतीय सांस्कृतिक | संस्कृति परिषद्, नई दिल्ली |

- | | |
|---------------------------|------------|
| 10. संयुक्त सचिव (प्रशा०) | सदस्य सचिव |
| विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली | |
| 11. संयुक्त सचिव (ई० ई०) | |
| विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली | |
| 12. संयुक्त सचिव (एकम पी) | |
| विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली | |

13. संयुक्त सचिव (सी पी बी)
विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली

14. संयुक्त सचिव (अफीका)
विदेश मंत्रालय, नई दिल्ली

15. संयुक्त सचिव
राजभाषा विभाग, नई दिल्ली

समिति का कार्यक्षेत्र

हिन्दी सलाहकार समिति का कार्य संविधान, राजभाषा अधिनियम व राजभाषा नियमों में निहित प्रावधानों और केन्द्रीय हिन्दी समिति के नीतिगत निर्णयों तथा गृह मंत्रालय/राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा के संबंध में जारी किए गए निर्देशों/अनुदेशों के कार्यान्वयन के बारे में और संबंधित विभागों के कामकाज में हिन्दी के प्रयोगी प्रयोग का बढ़ावा देने में सलाह देना है। यदि कोई हिन्दी सलाहकार समिति राजभाषा नीति या उसके संबंध में जारी किए गए किसी निर्देश/अनुदेश में कोई परिवर्तन सुझाती है तो ऐसे सुझाव राजभाषा की पूर्व सहमति प्राप्त हुए बिना अमल में नहीं लाए जाएंगे।

समिति का कार्यकाल

1. समिति का कार्यकाल इसके गठन की तारीख के अधिस्तरना से तीन वर्ष का होगा, परन्तु समिति में नामांकित कोई सदस्य यदि मृत्यु का सदस्य नहीं रहता है तो वह इस समिति का भी सदस्य नहीं रहेगा।

2. समिति के कार्यकाल के दौरान रिक्त स्थानों पर नियुक्त सदस्य केवल शेष अवधि के लिए ही सदस्य होंगे।

विविध

1. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा लेकिन समिति अपनी बैठकें किसी अन्य स्थान पर भी कर सकती है।

2. समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-परवरी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय आपन संख्या 11/20034/4/86-राभा० (का-2) में निहित विज्ञापन-निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा सहायित, निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा-भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक, निदेशक लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व, समिति के सभी सदस्यों और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का तत्पक्ष जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एच०एच०एच० विश्वनाथन
संयुक्त सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 जून 2001

संकल्प

सं० 15/1/2001-आर एण्ड डी जल विज्ञान पर्वणी भारत-
तीय राष्ट्रीय समिति के गठन के संबंध में दिनांक 24 अप्रैल
1989 के संकल्प आदेश सं० 11-8-89 ई। में आश्रित
संशोधन करते हुए भारत सरकार इस समिति में संशोधन के बाद
से इनकोट (आई एन सी ओ एच) के रूप में उल्लिखित किया
जा रहा, को निम्नलिखित सरकारी और गैर सरकारी प्रावधानों
के साथ पुनर्गठित करती है।

1. संघटन

स्थाई सदस्य और उनके अधिकारिक पद

1. अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।

2. निदेशक राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, जल विज्ञान मंत्रालय
रजिस्ट्री-247661।

3. उपसहानिदेशक, (सहानिदेशक, जल एन आई द्वारा नामित
किया जाना है) भारतीय भू-वैज्ञानिक संस्थान, 7, जे एल एन
मार्ग, कलकत्ता-700016।

4. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूतंत्र बोर्ड, जमनालाल बहालदास
रोड, नई दिल्ली-110001।

5. उपसहानिदेशक, (सहानिदेशक आई एम सी द्वारा नामित
किया जाना है) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, गोपबंद मन्त
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003।

6. वैज्ञानिक ई राष्ट्रीय दूरस्थ संचार अभियान, प्रालोचन,
हैदराबाद।

7. अध्यक्ष, भारतीय जल वैज्ञानिक संघ, रजिस्ट्री।

8. निवेशक (आर एण्ड डी) जल संसाधन मंत्रालय तथा
प्रमुख विषय वस्तु प्रभाग।

9. वैज्ञानिक 'ई' राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्था, रजिस्ट्री।

जल संसाधन मंत्रालय द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए
निर्भर तीन केन्द्रीय संगठनों के जल विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित
कर्म से कम मुख्य अभियंता के पद वाले प्रतिनिधि।

10. सदस्य (डिप्टी एण्ड पी) केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।

11. महाप्रबंधक ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी।

12. निदेशक डिप्टी सी आई ए आर आई नई दिल्ली।

जन संसाधन मंत्रालय द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त छह राज्यों के कम से कम के पद वाले प्रतिनिधि

13. मुख्य अभियन्ता (बृहद सिंचाई), आन्ध्र प्रदेश
14. मुख्य अभियन्ता (सिंचाई), हरियाणा
15. निदेशक, जलविज्ञान प्रकोष्ठ, राजस्थान
16. निदेशक (जन संसाधन), पंजाब
17. मुख्य अभियन्ता (डिजाइन), उड़ीसा
18. मुख्य अभियन्ता (सिंचाई), असम

जन विज्ञान से संबंधित राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय संगठनों के सदस्यों में से जलविज्ञान के क्षेत्र में कार्यरत तीन प्रमुख परिषद सदस्य का जन संसाधन मंत्रालय द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त।

19. अध्यक्ष, आई डब्ल्यू आर एस, रुड़की अथवा उनके प्रतिनिधि।
20. डा० एन० वेदुला, प्रोफेसर, IIT विज्ञान, बंगलूर।
21. डा० बी०बी०ए०पी० सिंह, सेवामुक्त प्रोफेसर, रुड़की विश्वविद्यालय, रुड़की।

1. समिति के पदाधिकारी

अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग इनकोह के अध्यक्ष होंगे।

अध्यक्ष राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान इनकोह के कार्यपालक सदस्य होंगे।

वर्मानेक ई, राष्ट्रीय जन विज्ञान संस्थान इनकोह के सदस्य सचिव होंगे।

2. समिति की गतिविधियाँ

1. जन विज्ञान से संबंधित मामलों पर केन्द्र एवं राज्य सरकारों तथा उनके अधिकरणों को सलाह देना, समिति को सलाह देना के लिए विशेष समस्याओं पर विचार करने के वास्ते विशेषज्ञ मंच नियुक्त करना।

2. जल विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में देश में (आधुनिक प्रौद्योगिकी) (स्टेट ऑफ आर्ट) तैयार करना एवं समय-समय पर अद्यतन करना, पत्रिकाओं, अनुसंधान समाचारों/डाइजेस्टों के माध्यम से जल विज्ञान से संबंधित सूचनाओं का प्रसार करना, सेमिनारों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं जैसी जन-जागरूकता कार्यक्रमों को प्रवर्द्धन करना एवं उन्हें लागू करना, जल विज्ञान के वास्ते अनुसंधान एवं विकास समीक्षा सत्रों को व्यवस्थित करना।

3. जन विज्ञान के विकास का ऐतिहासिक मूल्यांकन संबंधी अध्ययन शुरू करना तथा जल विज्ञान में अनुसंधान के वास्ते प्राथमिक योजना लागू करना।

4. जल विज्ञान अनुसंधान संस्थानों के अवसंरचनात्मक विकास के लिए वित्तपोषण की सिफारिश करना; जलविज्ञान के संबंध में उत्कृष्ट केन्द्रों की मान्यता के लिए सिफारिश करना, अन्य राष्ट्रीय समितियों/बोर्डों संबंधित भारत सरकार/राज्य

संस्थाओं, सी०एल०आई०आर० प्रयोगशालाओं, आई आई टी, इंजीनियरिंग कालेजों एवं पॉलिटेक्नीक विश्वविद्यालयों एवं अन्य मौसमिक संस्थानों के साथ प्रभावी सहयोग बनाए रखना।

5. सामान्य तौर पर जलविज्ञान संबंधी अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में तालमेल रखना तथा विशेष रूप में जन संसाधन मंत्रालय के अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम के बीच तालमेल रखना, अनुसंधान स्कीमों संबंधी निष्पादन संस्थानों द्वारा की गई प्रगति की मानीटरिंग करना, विभिन्न संस्थानों के अनुसंधान कार्यक्रमों की पुनरावृत्ति को रोकना, उन क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों को आमंत्रित करना एवं बढ़ावा देना जहाँ अपर्याप्त कार्य हुए हों जलविज्ञान संबंधी अनुसंधान एवं विकास कार्य शुरू करने के लिए राष्ट्रीय संस्थानों, स्वैच्छिक व्यावसायिक निकायों एवं गैर-व्यावसायिक, गैर-सरकारी संगठनों को बढ़ावा देना।

6. मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देना जिससे अनुसंधान कर्मचारियों की विशेषज्ञता हो तथा उत्कृष्ट अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देने के वास्ते सिफारिश करना।

7. जल विज्ञान से संबंधित अंतराष्ट्रीय कार्यक्रमों में भारत की प्रभावी सहभागिता को बढ़ावा देना तथा तालमेल बनाए रखना एवं जहाँ आवश्यक हो ऐसे अंतराष्ट्रीय निकायों के लिए राष्ट्रीय समिति के रूप में कार्य करना।

8. जल विज्ञान में तकनीकी विकास को प्रवर्द्धन करने के लिए श्रृंखला के माध्यम से स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना।

3. बैठक

जब कभी आवश्यक होगी समिति की बैठक की जायेगी, तथापि, वर्ष में कम से कम एक बैठक होगी।

4. उप समितियाँ

यह समिति अधिकतम पांच उप-समितियाँ नियुक्त कर सकती है।

प्रत्येक उपसमितियों में अधिकतम आठ सदस्य हो सकते हैं।

इन आठ सदस्यों में से, चार सदस्य जल विज्ञान संबंधी अंतराष्ट्रीय समिति से हो सकते हैं, अर्थात् वे सदस्य जो जल विज्ञान संबंधी अंतराष्ट्रीय समिति के सदस्य नहीं हैं।

5. सचिवालय

जल विज्ञान संबंधी अंतराष्ट्रीय समिति का सचिवालय, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रुड़की के निदेशक के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होगा।

उप समितियों का सचिवालय, प्रत्येक उप-समिति के अध्यक्ष के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होगा।

6. धन

जल विज्ञान संबंधी अंतराष्ट्रीय समिति तथा इसकी उप-समितियों के जविकारिक सदस्यों को भी यात्रा भत्ता/मंजूराई

भारत संबंधी व्यय उत स्रोतों से दिये जायेंगे जिनमें वे अनुदान वेतन लेते हैं और गैर-सरकारी सदस्यों को जल-विज्ञान, सूचना अंतर्राष्ट्रीय समिति के निधियों/अनुदानों से दिया जाएगा।

सचिवालय के कार्यकलापों और गैर-सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता/मंहुगाई भत्ता संबंधी व्यय, अनुसंधान और विकास योजना प्रावधानों के अनुसार प्रभाव्य होंगे।

असस 2, 1922 का उद्देश्य है कि उपरोक्त संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

पंडित सुरी
असस सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 30th May 2001

RESOLUTION

No. Q/Hindi/621/58/98—In supersession of this Ministry's resolution No. Q/Hindi/621/32/93 date 10 May, 1995 the Govt. of India, Ministry of External Affairs have decided to reconstitute the Hindi Advisory Committee of the Ministry of External Affairs. The Composition of the reconstituted Committee shall be follows :

1. Minister of External Affairs Chairman
2. Minister of State for External Affairs Vice Chairman

MEMBERS OF PARLIAMENT

1. Shri Ved Parkash Goyal, Member of Parliament (Rajya Sabha)
2. Smt. Sula Maheshwari, Member of Parliament (Rajya Sabha)
3. Shri Sanjay Paswan, Member of Parliament (Lok Sabha)
4. Shri Shis Ram Oja, Member of Parliament (Lok Sabha)

REPRESENTATIVES OF THE COMMITTEE OF PARLIAMENT ON OFFICIAL LANGUAGE

5. Shri Rama Sankar Kaushik, Member of Parliament (Rajya Sabha)
6. Dr. Laxmi Narayan Pandey, Member of Parliament (Lok Sabha)

NON-OFFICIAL MEMBERS NOMINATED BY THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

7. Dr. Vidya Niwas Misra, Renowned Hindi Scholar, Writer and Journalist
8. Dr. Chandrika Prasad Sharma, Retired Reader (Hindi) & Writer
9. Smt. Mridula Sinha, Social worker and Chairperson, Women's Social Welfare Board
10. Dr. Vikram Singh, Hindi Writer

NON-OFFICIAL MEMBERS NOMINATED BY THE DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

11. Dr. Kishav Falke, 12-B/20, Shuskey Adhikari Niwas, Haji Ali, Mumbai-400034 (Maharashtra)
12. Dr. Madhu Dhanu, K-3, Anna Nagar (East), Chennai-600102 (TN)
13. Dr. Chandrakant Mehta, 16, Heaven Park, Ramdev Nagar, Satellite, Ahmedabad-380015 (Gujarat)

REPRESENTATIVE OF NAGARI PRACHARINI SABHA

14. Shri Sudhakar Pandey, Pradhan Mantri, Nagari Pracharini Sabha, Varanasi.

REPRESENTATIVE OF KENDRIYA SACHIVALAYA HINDI PARISHAD

15. Shri Gopal Krishan Faralia, Representative of Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad, New Delhi.

OFFICIAL MEMBERS

1. Foreign Secretary
2. Secretary, Deptt. of Official Language, Ministry of Home Affairs, New Delhi
3. Secretary (ER), Ministry of External Affairs, New Delhi
4. Secretary & Dean, FSI, Ministry of External Affairs, New Delhi
5. Secretary (West), Ministry of External Affairs, New Delhi
6. Addl. Secretary (Ad.), Ministry of External Affairs, New Delhi
7. Addl. Secretary (UN), Ministry of External Affairs, New Delhi

8. Addl. Secretary (FA)
Ministry of External Affairs,
New Delhi
9. Director General
Indian Council for Cultural Relations,
New Delhi
10. Joint Secretary (Ad) ember Secretary
Ministry of External Affairs,
New Delhi
11. Joint Secretary (EE)
Ministry of External Affairs
12. Joint Secretary (XP)
Ministry of External Affairs
New Delhi
13. Joint Secretary (CPV)
Ministry of External Affairs
New Delhi
14. Joint Secretary (Africa)
Ministry of External Affairs, New Delhi
15. Joint Secretary,
Deptt. of Official Language,
New Delhi

FUNCTIONS

The functions of the Hindi Salahakar Samiti is to advise the Ministry with regard to the implementation of the provisions relating to Official language contained in the constitution, Official Language Act and Rules, and Policy decision of the Kendriya Hindi Samiti and instructions issued by the Ministry of Home Affairs/Deptt. of Official Language relating to Official Language and also in regard to progressive use of Hindi. In case Hindi Salahakar Samiti suggests any change in the Official Language Policy or any instructions issued regarding Official Language, the same should be referred to Department of Official Language and should not be implemented without obtaining the concurrence of the Department of Official Language.

TENURE

The terms of the committee shall be three years from the date of its formation, provided:

1. A Member of Parliament nominated to the committee shall cease to be a member of the committee as soon as he ceases to be a Member of Parliament.
2. Members appointed against mid-term vacancies shall be the member for the remaining period only.

GENERAL

1. The Headquarter of the Committee shall be at New Delhi but it may hold its meetings at any other station also.

2. The Non-Official Members taking part in the Meeting of the Committee will be paid travelling and daily allowances at the rates prescribed from time to time by the Government of India keeping in view the instructions contained in O. M. No. II/20034/4/86-OL (A-2) dated 22nd January, 1987 of the Department of Official Language

ORDER

ORDERED that a copy of this resolution be communicated to President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Director of Audit, Central Revenue, all members of the Committee and all Ministries and Departments of Government of India.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

H. H. S. VISWANATHAN
Joint Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 1st June, 2001

RESOLUTION

No. 15/1/2001-R&D—In partial modification of earlier resolution/order No 11/8/89-E. II dated 24th April, 1989 relating to constitution of Indian National Committee on Hydrology, Government of India is pleased to reconstitute the committee, hereinafter referred to as INCOH, with the following composition, functions and related provisions.

1. COMPOSITION :

Permanent Members in their official capacity

1. Chairman Central Water Commission,
New Delhi.
2. Director National Institute of Hydrology, Jal
Vigyan Bhawan, Roorkee-247661.
3. Dy. Director General, (to be nominated by
Director General GSI)
Geological Survey of India, 27, JLN
Marg, Calcutta-70016.
4. Chairman Central Ground Water Board
Jamnagar House, Mansingh Road,
New Delhi-110001.

5. Dy. Director General (to be nominated by Director General IMD)
India Meteorological Dept., Mausam Bhawan, Lodi Road,
New Delhi-110003

6. Scientist 'E', National Remote Sensing Agency,
Balanagar, Hyderabad
7. President, Indian Association of Hydrologists,
Roorkee
8. Director (R&D), MoWR and Head Subject
Matter Division
9. Scientist "E" National Institute of Hydrology,
Roorkee

Representative of three Central Organisations not below the rank of Chief Engineer, related to the field of Hydrology. Appointed for a three year term by MoWR.

10. Member (WP&P), Central Water Commission
New Delhi.
11. General Manager, Brahmaputra Board, Guwahati
12. Director, W.T.C. IARI, New Delhi

Representative of six States not below the rank of Director. Appointed for a three year term by MoWR

13. Chief Engineer (Major Irrigation), Andhra Pradesh
14. Chief Engineer (Irrigation), Haryana
15. Director, Hydrology Cell, Rajasthan
16. Director (Water Resources), Punjab.
17. Chief Engineer (Design), Orissa.
18. Chief Engineer (Irrigation), Assam.

There eminent academicians working in the field of hydrology from among the members of National/International associations dealing with Hydrology. Appointed for a three year term by MoWR.

19. President, IWRS, Roorkee or his representative
20. Dr. S. Vedula, Professor IISc., Bangalore
21. Dr. B. B. S. Singhal, Professor Emeritus, UoR,
Roorkee.

Office Bearers of the Committee

- Chairman Central Water Commission
will be the Chairman of INCOH
- Director National Institute of Hydrology will be
the Executive Member of INCOH.

-- Scientist "E", National Institute of Hydrology,
will be the Member-Secretary of INCOH.

2. FUNCTIONS OF THE COMMITTEE

1. To give advice to Central and State Governments and their agencies on the matters related to hydrology; to appoint expert panels to consider special problems to advise the committee.
2. To Prepare and Periodically update the State of art in the country in different branches of Hydrology; to disseminate information related to hydrology by way of publishing journals, research news/digests; to support and conduct mass awareness Programme like Seminars/conference/ Workshops and to arrange R&D review sessions for hydrology.
3. To undertake studies on historical appreciation of development of hydrology and introduce perspective Planning for research in hydrology.
4. To recommend funding for the infrastructure development of hydrological research institutions; to recommend recognition of Centres of Excellence in Hydrology; to maintain effective co-operation with other National Committees/Boards, related to GOI/State Ministries, CSIR Labs, IITs, Engineering Colleges and Polytechnics Universities & other Academic Institutions.
5. To co-ordinate the R&D activities in hydrology in general and to co-ordinate R&D Programme of the MoWR in Particular; to monitor the Progress made by the executing institutions on research schemes; to identify areas which need immediate attention; to avoid overlaps in the research programmes of the different Institutions; to invite and encourage R&D proposals in areas where work being done is inadequate; to encourage the national institutions, voluntary professional bodies and non-commercial NGOs to take up R&D in hydrology.
6. To promote HRD programmes, leading to specialisation of Research Staff and recommend encouragement for the outstanding research personnel.
7. To promote and co-ordinate effective participation of India in the International pro-

grammes related to Hydrology and to act as national committee for such International bodies where required.

8. To encourage indigenous industry through loans to take up technological development in Hydrology.

3. MEETINGS

The Committee will meet as and when necessary; however, there shall be at least one meeting in a year.

4. SUB-COMMITTEES

The committee may appoint a maximum of five sub-committees.

Each of these sub-committees may have a maximum of eight members.

Out of these eight members, upto four members may be from outside INCOH, i.e. those who are themselves not members of INCOH.

5. SECRETARIAT

The Secretariat of INCOH will be under the administrative control of Director, NIH, Roorkee.

Secretariat of the sub-committees will be under administrative control of the Chairman of each sub-committee.

6. EXPENDITURE

Expenditure on account of TA/DA to official members of INCOH and also its sub-committees will be met from the sources from which they draw their salaries and that to non-official members will be met from the funds/grants of the INCOH.

Expenditure on account of activities of secretariat and TA/DA to non-official members shall be chargeable to R&D Plan Provisions.

ORDERED that the above resolution may be published in the Gazette of India.

A.K. SURI
Under Secy

